



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1982/फाल्गुन 10, 1903

No. 69]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1982/PHALGUNA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

सं० 78/82-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1982

सा० का० नि० 233(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधि-
नियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि
लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
(1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अधीन आने वाले
एथिलीन डाइक्लोराइड जब उसका पोलिविनाइल क्लोराइड रजिन्स के
निर्माण के लिए भारत में आयात किया जाता है उस पर उच्चगृहीय
सम्पूर्ण सीमाशुल्क से, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया
है और उक्त वर्णित दूसरे अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर
उच्चगृहीय सम्पूर्ण प्रतिरक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1982 तक जिसमें यह दिन की
सम्मिलित है प्रभावी रहेगी।

[फा० सं० 355/206/81-सीमा शुल्क-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

No. 78/82-CUSTOMS

New Delhi, the 1st March, 1982

G.S.R. 233(E).—In exercise of the powers conferred by
sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of

1393 GI/81

1962), the Central Government, being satisfied that it is
necessary in the public interest so to do, hereby exempts
Ethylene Dichloride, falling within Chapter 29 of the First
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when
imported into India for the manufacture of Polyvinyl Chlo-
ride Resins, from the whole of the duty of customs leviable
thereon which is specified in the said First Schedule and the
whole of the additional duty leviable thereon under sec-
tion 3 of the said second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of
the 31st day of August, 1982.

[F. No. 355/206/81-Cus. I]

सं० 79/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 234(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक,
1982 के खण्ड 44 के उपखण्ड (4) के जो खण्ड प्रस्तावित कर संग्रहण
अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में
की गई मोधना के कारण विधि का बल रखती है, साथ पठित सीमाशुल्क
अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर
कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय
(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 60-सीमाशुल्क तारीख 28 फरवरी,
1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप
किया जाएगा ;

(275)

(अ) क्रम संख्या 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"205 सं० 78-सीमाशुल्क ता० 1 मार्च, 1982।"

[फा० सं० 355/206/82-सीमाशुल्क-1]

No. 79/82-CUSTOMS

G.S.R. 234(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the provisional collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 60-Customs, dated the 28th February, 1982.

In the Schedule to the said notification,—

(a) Serial No. 182 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 204 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"205 No. 78-Customs, dated the 1st March, 1982."

[F. No. 355/206/81-Cus.II]

सं० 80/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 235(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मृत तापित मैग्नेसाइट पर जब इनका आयात भारत में किया जाता है उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी रहेगी।

[फा० सं० 355/14/82-सीमा शुल्क-1]

No. 80/82-CUSTOMS

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempt deadburnt magnesite, when imported into India, from so much of the portion of duty of customs leviable thereon which is specified in the first Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as in excess of 40 per cent ad-valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of April, 1983.

[F. No. 355/14/82-Cus-I]

सं० 81/82-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 236(अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1982 के खण्ड 44 के उपखण्ड (4) के जो खण्ड अनन्तित कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण विधि का बल रखती है, साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 60-सीमाशुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का खोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम संख्या 205 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"206 सं० 80-सीमाशुल्क ता० 1 मार्च, 1982।"

[फा० सं० 355/20/82-सीमाशुल्क-1]

No. 81/82-CUSTOMS

G.S.R. 236(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 60-Customs, dated the 28th February, 1982.

In the Schedule to the said notification,—

(a) Serial No. 183 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 205 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"206 No. 80-Customs, dated the 1st March, 1982."

[F. No. 355/14/82-Cus.-I]

सं० 82/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 237(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 241/82-सीमाशुल्क, तारीख 13 नवम्बर, 1981 को अधिकांश करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, कच्चे लोहे को जब उसका आयात भारत में किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से, जितना सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो मूल्य के 20 प्रतिशत अधिक है और द्वितीय उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण प्रतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1982 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी।

[फा० सं० 355/20/82-सीमा-1]

No. 82/82-Customs

G.S.R. 237(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 241/81-Customs, dated the 13th November, 1981, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts pig iron, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of 20 per cent ad-valorem and from the whole of the additional duty leviable thereupon under section 3 of the second mentioned Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st August, 1982.

[F. No. 355/80/82-Cus. I]

सं० 83/82-सीमाशुल्क

No. 83/82-Customs

सा० का० नि० 238(ख).—केंद्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1982 में खंड 440 के उप-खण्ड (4) के जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण विधि का बल रखती है, साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 60 सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 200 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं० 206 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“207 सं० 82-सीमाशुल्क ता० 1-3-1982।”

[फा० सं० 355/20/82-सीमाशुल्क-1]

ए० के० छाबड़ा, उप-सचिव

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 44 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 60-Customs, dated the 28th February, 1982.

In the Schedule to the said notification,—

(a) Serial No. 200 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) after Serial No. 206 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“207 No. 82-Customs, dated the 1st March, 1982.”

[F. No. 355/20/82-Cus.I]

A. K. CHHABRA, Dy. Secy.

